



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

Phone No. 0771-2262587 Website : prsu.ac.in,

E-mail – dradmin@prsu.ac.in

क्रमांक/2686 /सा.प्रशा./NCNR/एफ-136/2025

रायपुर, दिनांक 07/09/2025
10

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की '99वाँ' बैठक दिनांक 13.08.2025 के विषय सूची बिन्दु क्रमांक 14 में लिए गए निर्णयानुसार, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के अन्तर्गत संचालित CIF(Central Instrumentation Facility)/National Center for Natural Resources(NCNR) में शोधकार्य हेतु Sample Analysis का दर निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

S. No.	Sample /Analysis	Description of Job	Client Type	Charges to be Paid		Remark
				PRSU Raipur Faculty and Students	Other person not belong to PRSU Raipur	
1.	Elemental Analysis (Per element)*,** By GF/HG/CV-AAS	Flame Based	Industry	500	600	* In case of multiple elements/ samples charges will be 1000/- (up to 05 elements), **Charges for qualitative full scan For Quantitative analysis in AAS, Standards will be counted as individual samples.
			Educational Institute/Research Institute	250	300	
		Graphite furnace	Industry	750	900	
			Educational Institute/Research Institute	250	300	
		Cold Vapor/Vapor based analysis for As and Hg	Industry	750	900	
			Educational Institute/Research Institute	250	300	
2.	Structural Analysis (Per Sample)* By NMR-400MHz	¹ H-NMR (Proton)	Industry	1000	1500	** In case of multiple atomic structural analysis/sample- Rs 1000 (upto 5 anions)
			Educational Institute/Research Institute	500	750	
		¹³ C-NMR and others	Industry	1500	2000	
			Educational Institute/Research Institute	750	1000	
3.	Organic and Inorganic Analysis (Per Sample)# By HPTLC	HPTLC	Industry	1500	2000	*Charges for qualitative full scan For Quantitative analysis in HPTLC, Standards will be counted as individual samples.
			Educational Institute/Research Institute	800	1200	
		Separation	Industry	1000	1200	
			Educational Institute/Research Institute	500	750	
4.	Organic and Inorganic compounds (Per Sample)* By LC-MS-MS	Per Sample, M/Z ratio LC-MS-MS (detection)	Industry	2000	2500	*Charges for qualitative full scan For Quantitative analysis in LC-MS-MS, Standards will be counted as individual samples.
			Educational Institute/Research Institute	1500	2000	
		Separation (LC)	Industry	1000	1500	
			Educational Institute/Research Institute	500	1000	
5.	Organic and Inorganic compounds (Per Sample)* By HPLC	HPLC	Industry	1200	1500	*Charges for qualitative full scan For Quantitative analysis in HPLC, Standards will be counted as individual samples.
			Educational Institute/Research Institute	1000	1200	
		Separation	Industry	1000	1200	
			Educational Institute/Research Institute	750	900	

to be continue...

6.	Functional Group and structural analysis (Per Sample)* By ATR/DRS-FTIR	Graph/scanning	Industry	1200	1500	*Charges for qualitative full scan For Quantitative analysis in FTIR, Standards will be counted as individual samples.
			Educational Institute/Research Institute	300	350	
		Sample treatment + Scanning	Industry	1500	1800	
			Educational Institute/Research Institute	600	750	
7.	Fluorescence Microscope (Per Sample)	Scanning	Industry	1000	2000	
			Educational Institute/Research Institute	500	1000	
		Photography	Industry	500	1000	
			Educational Institute/Research Institute	500	750	
8.	Cloning and sequencing, (Per Sample) By RT-PCR	RT-PCR	Industry	1000	1050	
			Educational Institute/Research Institute	500	750	
		Sample preparation process for organic compounds	Industry	1000	1050	
			Educational Institute/Research Institute	450	600	
9.	Genetic and pathogens detection, (Per Sample) By RT-PCR	PCR	Industry	500	1000	
			Educational Institute/Research Institute	250	500	
		Sample preparation process for organic compounds	Industry	500	800	
			Educational Institute/Research Institute	250	500	
10.	UV-Visible Spectroscopic Analysis	Scanning	Industry	500	600	*Charges for qualitative full scan For Quantitative analysis in UV-Vis., Standards will be counted as individual samples.
			Educational Institute/Research Institute	100	150	
		Sample treatment + Scanning	Industry	1500	1800	
			Educational Institute/Research Institute	400	450	
11.	Gel Documentation (Per sample)	Documentation	Industry	800	1000	
			Educational Institute/Research Institute	500	800	
12.	Water removal/Sublimation (Per Sample), By Lyophilizer	Lyophilizer	Industry	1500	2000	
			Educational Institute/Research Institute	1000	1500	
13.	Sample Extraction (Per Sample)*, ** By Super Critical Fluid Extraction Unit	Extraction	Industry	2500	3000	*Case to case bases: 500 gm of sample: 5000/-per sample
			Educational Institute/Research Institute	1000	1200	**Case to case bases: 500 gm of sample: 2500/-per sample
14.	Sample Extraction (Per Sample)*, ** By Soxhlet Solvent extraction Unit	Extraction	Industry	2000	2500	*Case to case bases 500 gm of sample :4000/-per sample
			Educational Institute/Research Institute	750	850	**Case to case bases 500 gm of sample :2000/-per sample

(3)

//3//

15.	Cultures of Plant By PTC lab (No. of sample per Day)	Plant tissue Cultures	Industry	1000	1500	*In case of multiple plant/ samples charges will be 500/- (up to 05 plants),
			Educational Institute/Research Institute	500	1000	
16.	Moisture Analyzer	Moisture Content Analysis	Industry	500	800	
			Educational Institute/Research Institute	250	500	
17.	High Speed Centrifuge (Per Sample)	Centrifuge	Industry	500	800	
			Educational Institute/Research Institute	250	500	

टीप :-

1. सी.आई.एफ.(एन.सी.एन.आर.) कार्यालय द्वारा विश्लेषणात्मक डाटा संबंधित विवरण केवल अनुसंधान एवं विकास उद्देश्यों के लिए प्रदान किया जावेगा, इन्हें कानूनी विवादों में प्रमाण-पत्र के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता।
2. सी.आई.एफ.(एन.सी.एन.आर.) कार्यालय से विश्लेषण के बारे में सभी प्रश्न/जानकारी प्राप्त किये जा सकते हैं।
3. उपरोक्तानुसार निर्धारित दरों का भुगतान सी.आई.एफ.(एन.सी.एन.आर.) कार्यालय से अग्रेषित कराकर विश्वविद्यालय के वित्त शाखा में जमा करायी जावे।
4. विश्वविद्यालय अध्ययनशाला के जिन शोध छात्रों को वित्तीय सहायता नहीं मिलती है, उन्हें कुलपति के अनुमोदन के पश्चात् छूट देने का प्रावधान होगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ.क्र./2687/सा.प्रशा./NCNR/एफ-136/2025

रायपुर, दिनांक 07/09/2025

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, सी.आई.एफ.(एन.सी.एन.आर.), पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को इस आशय के साथ सूचनार्थ कि शोध छात्रों को उपरोक्तानुसार अवगत करावें।
3. वित्त नियंत्रक, वित्त विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

उप कुलसचिव (प्रशा.)